



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 1, 2018/फाल्गुन 10, 1939

No. 86]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 2018/PHALGUNA 10, 1939

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2018

सं. भा.आ.प.-201/2017-पात्रता/सामान्य/176486.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, “किसी विदेशी चिकित्सा संस्थान में स्नातक-पूर्व चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला लेने हेतु पात्रता विनियमावली, 2002” में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :—

1. इन विनियमों को “किसी विदेशी चिकित्सा संस्थान में स्नातक-पूर्व चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला लेने हेतु पात्रता विनियमावली (संशोधन), 2018” कहा जाएगा।
2. “किसी विदेशी चिकित्सा संस्थान में स्नातक-पूर्व चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला लेने हेतु पात्रता विनियमावली, 2002” में इसमें दर्शाए गए अनुसार निम्नलिखित अभिवर्धन/संशोधन/ विलोप/प्रतिस्थापन होंगे:
3. “पात्रता मापदंड” शीर्षक के अंतर्गत विनियम 8 में, “किसी विदेशी चिकित्सा संस्थान में स्नातक-पूर्व चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला लेने हेतु पात्रता विनियमावली, 2002” के खंड 8 (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा:

(iv) मई, 2018 को या इसके पश्चात भारत के बाहर के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राथमिक चिकित्सा शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय नागरिकों/समुद्रपारीय भारतीय नागरिकों को ‘एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले हेतु राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा’ में अनिवार्य रूप से अर्हता प्राप्त करनी होगी।

‘एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले हेतु राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा’ का परिणाम, ऐसे व्यक्तियों के लिए पात्रता प्रमाणपत्र के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति, स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियमावली, 1997 में विनिर्धारित एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले हेतु पात्रता मापदंड पूरा करते हों।

डॉ. रीना नय्यर, सचिव, प्रभारी

[विज्ञापन- III/4/असा./458/2017]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामतः “किसी विदेशी चिकित्सा संस्थान में स्नातक-पूर्व चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला लेने हेतु पात्रता विनियमावली, 2002”, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 18 फरवरी, 2002 की अधिसूचना के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 22 फरवरी, 2002 और 16 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत पुनःसंशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2018

No. MCI-201/2017-Eligi./Gen./176486.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “Eligibility Requirement for Taking Admission in an Undergraduate Medical Course in a Foreign Medical Institution Regulation, 2002” namely:—

1. These regulations may be called the “Eligibility Requirement for Taking Admission in an Undergraduate Medical Course in a Foreign Medical Institution Regulation, 2002 (Amendment), 2018.”
2. In the “Eligibility Requirement for Taking Admission in an Undergraduate Medical Course in a Foreign Medical Institution Regulation, 2002”, the following additions/modifications/deletions substitutions shall be, as indicated therein.
3. In regulation 8 under heading “Eligibility Criteria”, the following shall be added after Clause 8(iii) in the Eligibility Requirement for Taking Admission in an Undergraduate Medical Course in a Foreign Medical Institution Regulation, 2002:—

(iv) Indian Citizens/Overseas Citizen of India intending to obtain primary medical qualification from any medical institution outside India, on or after May 2018, shall have to mandatorily qualify the ‘National-Eligibility-cum-Entrance Test for Admission to MBBS course’. The result of the ‘National-Eligibility-cum-Entrance Test for Admission to MBBS course’ shall deem to be treated as the Eligibility Certificate for such persons, provided that such persons fulfils the Eligibility Criteria for admission to the MBBS course prescribed in the Regulations on Graduate Medical Education, 1997.

Dr. REENA NAYYAR, Secy. I/C

[ADVT.-III/4/Ext./458/2017]

Foot Note: The principal Regulations namely, “Eligibility Requirement for Taking Admission in an Undergraduate Medical Course in a Foreign Medical Institution Regulation, 2002” were published on 18th February, 2002 in Part III, Section 4 of the Gazette of India and amended *vide* Medical Council of India Notification dated the 22nd February, 2002 and 16th April, 2010.